



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 466]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 12, 1982/अश्विन 20, 1904

No. 466]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 12, 1982/ASVINA 20, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मन्त्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचनाएँ

नई दिल्ली 12 अक्तूबर, 1982

जीमा

का० मा० 730 (अ) —केन्द्रीय सरकार साधारण जीमा कारखाना
(राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 16 की
उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यू इंडिया
इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (विलयन) स्कीम, 1973 का संशोधन करने के
लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी
लिमिटेड (विलयन) संशोधन स्कीम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2 न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (विलयन) स्कीम, 1973
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के पैरा 10 में—

(i) प्रारंभिक भाग में “बीस करोड़ रुपए” शब्दों के स्थान पर
“पचपन करोड़ रुपए” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (क) में “तीन करोड़ साधारण शेयर” शब्दों के स्थान

पर “दस करोड़ साधारण शेयर” शब्द रखे जाएंगे।
3 उक्त स्कीम की द्वितीय अनुसूची में—

(क) भाग 1 के पैरा 1 में प्रतिस्थापित पैरा 5 में—

(i) “बीस करोड़ रुपए” शब्दों के स्थान पर “पचपन करोड़
रुपए” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (क) में “तीन करोड़ रुपए के साधारण शेयर” शब्दों
के स्थान पर “दस करोड़ साधारण शेयरों” शब्द रखे
जाएंगे।

(ख) भाग II के पैरा 1 में प्रतिस्थापित अनुच्छेद 4 में निम्न-
लिखित रखा जाएगा,—

(i) “बीस करोड़ रुपए” शब्दों के स्थान पर “पचपन
करोड़ रुपए” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) “तीन करोड़ साधारण शेयरों” शब्दों के स्थान पर
“दस करोड़ साधारण शेयरों” शब्द रखे जाएंगे।

[का० सं० 64 (46)-जीमा-I/82-I]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 12th October, 1982

INSURANCE

S.O.730(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 16 of the General Insurance Business Nationalisation Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby makes the following Scheme to amend the New India Assurance Company Limited (Merger) Scheme, 1973, namely:—

1. (1) This Scheme may be called the New India Assurance Company Limited (Merger) Amendment Scheme, 1982.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the New India Assurance Company Limited (Merger) Scheme, 1973 (hereinafter referred to as the said Scheme), in paragraph 10,—

- (i) in the opening portion, for the words "rupees twenty crores", the words "rupees fifty-five crores" shall be substituted;
- (ii) in clause (a), for the words "three crore equity shares" the words "ten crore equity shares" shall be substituted.

3. In the Second Schedule to the said Scheme,—

(a) in Part I, in paragraph 1, in paragraph 5 as so substituted,—

- (i) for the words "rupees twenty crores", the words "rupees fifty-five crores" shall be substituted;
- (ii) for the words "three crore equity shares" in clause (a) therein, the words "ten crore equity shares" shall be substituted

(b) in Part II, in paragraph 1, in Article 4 as so substituted,—

- (i) for the words "rupees twenty crores", the words "rupees fifty-five crores" shall be substituted;
- (ii) for the words "three crore equity shares", the words "ten crore equity shares" shall be substituted.

[F.No. 64(46)—Ins.I/82-I]

का० जा० 731 (अ).—केन्द्रीय सरकार साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 16 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए युनाइटेड इंडिया फायर एंड जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (विलयन) स्कीम, 1973 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, यथातः—

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम युनाइटेड इंडिया फायर एंड जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (विलयन) संशोधन स्कीम, 1982 है।

1. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2 युनाइटेड इंडिया फायर एंड जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (विलयन) स्कीम, 1973 (जिसे हममें हमसे पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के पैरा 10 में—

- (i) आरम्भिक भाग में "बीस करोड़ रुपए" शब्दों के स्थान पर "पचपन करोड़ रुपए" शब्द रखे जाएंगे;
- (ii) खंड (क) में "तीन करोड़ साधारण शेयर" शब्दों के स्थान पर "दस करोड़ साधारण शेयर" उपाब्द रखे जाएंगे।

3. इस स्कीम की द्वितीय अनुसूची में—

(क) भाग 1 के पैरा 2 में प्रतिस्थापित पैरा 5 में,

(i) "बीस करोड़ रुपए" शब्दों के स्थान पर "पचपन करोड़ रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (क) में, "तीन करोड़ रुपए के साधारण शेयरों" शब्दों के स्थान पर "दस करोड़ साधारण शेयरों" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) भाग II के पैरा 1 में, प्रतिस्थापित अनुसूचि 6 में—

(i) "बीस करोड़ रुपए" शब्दों के स्थान पर "पचपन करोड़ रुपए" शब्द रखे जाएंगे,

(ii) "तीन करोड़ के साधारण शेयरों" शब्दों के स्थान पर "दस करोड़ साधारण शेयरों" शब्द रखे जाएंगे।

[का० सं० 64(46)—बीमा-I/82-II]

S.O.731(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 16 of the Central Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby makes the following Scheme to amend the United India Fire and General Insurance Company Limited (Merger) Scheme, 1973, namely:—

1. (1) This Scheme may be called the United India Fire and General Insurance Company Limited (Merger) Amendment Scheme, 1982.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the United India Fire and General Insurance Company Limited (Merger) Scheme, 1973 (hereinafter referred to as the said Scheme), in paragraph 10,—

- (i) in the opening portion, for the words "rupees twenty crores", the words "rupees fifty-five crores" shall be substituted;
- (ii) in clause (a), for the words "three crore equity shares", the words "ten crore equity shares" shall be substituted.

3. In the Second Schedule to the said Scheme,—

(a) in Part I, in paragraph 2, in paragraph V as so substituted,—

- (i) for the words "rupees twenty crores", the words "rupees fifty-five crores" shall be substituted;
- (ii) for the words "three crore equity shares", the words "ten crore equity shares" shall be substituted.

(b) in Part II, in paragraph 1, in Article 6 as so substituted,—

- (i) for the words "rupees twenty crores", the words "rupees fifty-five crores" shall be substituted;
- (ii) for the words "three crore equity shares", the words "ten crore equity shares" shall be substituted.

[F.No.64(46)—Ins.I/82-II]

का०जा० 732(अ).—केन्द्रीय सरकार, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 16 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूनियटेड फायर एंड जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (विलयन) स्कीम, 1973 का संशोधन करने के लिये निम्नलिखित स्कीम बनाती है, यथातः—

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम यूनियटेड फायर एंड जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (विलयन) संशोधन स्कीम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. ओरिएण्टल फायर एंड जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (विलयन) स्कीम, 1973 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) पैरा II में,—

- (i) प्रारंभिक भाग में “बीस करोड़ रुपये” शब्दों के स्थान पर “पचपन करोड़ रुपये” शब्द रखे जायेंगे।
- (ii) खंड (क) में “तीन करोड़ साधारण शेयर” शब्दों के स्थान पर “दस करोड़ साधारण शेयर” शब्द रखे जायेंगे।

3. उक्त स्कीम की द्वितीय अनुसूची में,—

- (क) भाग I के पैरा 3 में, प्रतिस्थापित पैरा 5 में,—
- (i) “बीस करोड़ रुपये” शब्दों के स्थान पर “पचपन करोड़ रुपये” शब्द रखे जायेंगे।
- (ii) “तीन करोड़ साधारण शेयरों” शब्दों के स्थान पर “दस करोड़ साधारण शेयरों” शब्द रखे जायेंगे।
- (ख) भाग II के पैरा 1 में, प्रतिस्थापित अनुच्छेद 6 में,—
- (i) “बीस करोड़ रुपये” शब्दों के स्थान पर “पचपन करोड़ रुपये” शब्द रखे जायेंगे।
- (ii) “तीन करोड़ साधारण शेयरों” शब्दों के स्थान पर “दस करोड़ साधारण शेयरों” शब्द रखे जायेंगे।

[फा० सं० 64(46)-बीमा-I/82-III]

S. O. 732 :—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 16 of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby makes the following Scheme to amend the Oriental Fire and General Insurance Company Limited (Merger) Scheme, 1973, namely:—

1. (1) This Scheme may be called the Oriental Fire and General Insurance Company Limited (Merger) Amendment Scheme, 1982.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Oriental Fire and General Insurance Company Limited (Merger) Scheme, 1973 (hereinafter referred to as the said Scheme), in paragraph 11,—

- (i) in the opening portion, for the words “rupees twenty crores”, the words “rupees fifty-five crores” shall be substituted;
- (ii) in clause (a), for the words “three crore equity shares”, the words “ten crore equity shares” shall be substituted.

3. In the Second Schedule to the said Scheme,—

- (a) in Part I, in paragraph 3, in paragraph 5 as so substituted,—
 - (i) for the words “rupees twenty crores”, the words “rupees fifty-five crores” shall be substituted;
 - (ii) for the words “three crore equity shares”, the words “ten crore equity shares” shall be substituted.
- (b) in Part II, in paragraph 1, in Article 6 as so substituted,—
 - (i) for the words “rupees twenty crores”, the words “rupees fifty-five crores” shall be substituted;

(ii) for the words “three crore equity shares”, the words “ten crore equity shares” shall be substituted.

[F. No. 64(46)-Ins. I/82-II]

फा० सं० 733(ख):—केन्द्रीय सरकार, साधारण बीमा कारबाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 16 की उपधारा (6) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (विलयन) स्कीम, 1973 का संशोधन करने के लिये निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (विलयन) संशोधन स्कीम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (विलयन) स्कीम, 1973 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) पैरा 10 में,—

- (i) प्रारंभिक भाग में “बीस करोड़ रुपये” शब्दों के स्थान पर “पचपन करोड़ रुपये” शब्द रखे जायेंगे;
- (ii) खंड (ख) में “तीन करोड़ साधारण शेयर” शब्दों के स्थान पर “दस करोड़ साधारण शेयर” शब्द रखे जायेंगे।

3. उक्त स्कीम की द्वितीय अनुसूची में,—

(क) भाग I के पैरा 2 में, प्रतिस्थापित पैरा 5 में,—

- (i) “बीस करोड़ रुपये” शब्दों के स्थान पर “पचपन करोड़ रुपये” शब्द रखे जायेंगे;
- (ii) “तीन करोड़ के साधारण अंशों” शब्दों के स्थान पर “दस करोड़ रुपये साधारण शेयरों” शब्द रखे जायेंगे।

(ख) भाग II के पैरा 3 में, प्रतिस्थापित अनुच्छेद 4 में,—

- (i) “बीस करोड़ रुपये” शब्दों के स्थान पर “पचपन करोड़ रुपये” शब्द रखे जायेंगे;
- (ii) “तीन करोड़ के साधारण अंशों” के स्थान पर “दस करोड़ साधारण शेयरों” शब्द रखे जायेंगे।

[फा० सं० 64(46)-बीमा-I/82-IV]

कुमारी कुमुद लता मिश्र, अपर सचिव (बीमा)

S. O. 733(E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 16 of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby makes the following Scheme to amend the National Insurance Company Limited (Merger) Scheme, 1973, namely:—

1. (1) This Scheme may be called the National Insurance Company Limited (Merger) Amendment Scheme, 1982.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the National Insurance Company Limited (Merger) Scheme, 1973 (hereinafter referred to as the said Scheme), in paragraph 10,—

- (i) in the opening portion, for the words “rupees twenty crores”, the words “rupees fifty-five crores” shall be substituted;

- (ii) in clause (a), for the words "three crore equity shares", the words "ten crore equity shares" shall be substituted.

3. In the Second Schedule to the said Scheme.—

- (a) in Part I, in paragraph 2, in paragraph V as so substituted,—

- (i) for the words "rupees twenty crores", the words "rupees fifty-five crores" shall be substituted;

- (ii) for the words "three crore equity shares", the words "ten crore equity shares" shall be substituted.
- (b) in Part II, in paragraph 3, in Article 4 as so substituted,—
- (i) for the words "rupees twenty crores", the words "rupees fifty-five crores" shall be substituted;
- (ii) for the words "three crore equity shares", the words "ten crore equity shares" shall be substituted.

[F. No. 64(46)-Ins. I(82-IV)]
KUMARI KUSUM LATA MITAL,
Addl. Secy. (Insurance)